



**80722**  
Active Cases

**60490**  
Cured/  
Discharged

**4167**  
Deaths

**1**  
Migrated

Resources  
 State Data

COVID-19 INDIA  
as on : 26 May 2020, 08:00 IST (GMT+5:30)

For any technical enquiry with respect to COVID19, you may kindly email on [technicalquery.covid19@gov.in](mailto:technicalquery.covid19@gov.in)  
Aarogya Setu IVRS 1921

## Latest Updates

[24.05.2020](#)  
Guidelines for international arrivals **NEW**

COVID-19 Statewise Status (Click to expand)

## Resources

<a href="#">Travel Advisories</a>	<a href="#">24.05.2020</a> Guidelines for international arrivals
<a href="#">Behavioural Health : Psycho-Social toll free helpline-08046110007</a>	<a href="#">24.05.2020</a> Guidelines for domestic travel (air/train/inter-state bus travel)
<a href="#">Citizens</a>	<a href="#">20.03.2020</a> Instructions to all major and minor ports for dealing with(COVID-19)
<a href="#">Hospitals</a>	<a href="#">19.03.2020</a> Additional Travel Advisory
<a href="#">Training Material</a>	<a href="#">18.03.2020</a> Standard Operating Procedure for Passenger Movement post Disembarkation
<a href="#">States / Departments / Ministries</a>	<a href="#">17.03.2020</a> Additional Travel Advisory
<a href="#">Employees</a>	<a href="#">16.03.2020</a> Additional Travel Advisory
<a href="#">Awareness Material</a>	
<a href="#">Inspirational series on Healthcare Service Personnel</a>	<a href="#">14.03.2020</a>

## Awareness

English Hindi



Ministry of Health and Family Welfare  
Government of India

# NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19)



There is enough of everything, everyday for everyone  
**Don't Panic | Don't Rush | Don't Overstock**



Maintain at least 1 metre distance in market places, medical stores, hospitals, etc.



Show patience and keep calm while shopping for essential goods/medical supplies



Avoid frequent trips to the market to buy groceries/medical supplies



Avoid shaking hands and hugging as a matter of greeting



Avoid non-essential social gatherings at home



Don't allow visitors at home or visit someone else's home

## Observe social distancing at all times

If you have symptoms like cough, fever or difficulty in breathing, avoid any kind of exposure and immediately call the helpline numbers

Together we will fight COVID-19

For information related to COVID-19

Call Ministry of Health and Family Welfare, Government of India's 24x7 Control Room Number  
1019 (Toll Free) | 011-23116014 . Email at [ncov2019@nic.in](mailto:ncov2019@nic.in) . [ncov2019@gmail.com](mailto:ncov2019@gmail.com)



[ncov19@whatsapp](#)



[ncov19@facebook](#)



[ncov19@twitter](#)



[ncov19@youtube](#)

design: @MONIJA0001@PHOTO







स्वास्थ्य एवं कुटुंब कल्याण विभाग  
भारत सरकार



Help us to  
help you



# नोवल कोरोनावायरस (COVID-19)

## COVID-19 परीक्षण की आवश्यकता – कब और कैसे?

सभी व्यक्तियों की जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि

सुझाव है कि वे जो अपनी व्यक्तियों में चला गया है, जिन्होंने COVID-19 से प्रभावित लोगों की सलाह की हो या संक्रमित व्यक्ति को संपर्क में रहे हो

### किन लोगों का परीक्षण करना है

उन सभी व्यक्तियों का, जिनमें लक्षण मौजूद हो और

- जिन्होंने पिछले 14 दिनों में कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की हो
- जो किसी संक्रमित व्यक्ति को संपर्क में आये हो
- जो स्वास्थ्यकर्मी हैं
- अस्पतालों में नती सीविकर एक्टिव रेस्पिरेटरी इलनेस (SARI), इन्फ्लुएंजा ल्यूक इलनेस (ILI) या सीविकर निवॉनिया जैसे बीमारियों को सही तरीका

ऐसे लक्षण-रहित व्यक्ति जो किसी संक्रमित व्यक्ति से प्रत्यक्ष और उच्च जोखिम संपर्क में आते हैं, उनका परीक्षण एक बार संपर्क में आने के 14वें दिन और 14वें दिन के बीच में किया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष और उच्च जोखिम वाले संपर्क निम्न हैं:

- जो संक्रमित व्यक्ति को सलाह एक ही घर में रह रहे हो
- जो स्वास्थ्य कर्मी/कर्मचारी जिन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO, एच.डी.) द्वारा प्रमाणित परीक्षा सुझाव मानकों के बिना किसी संक्रमित व्यक्ति की जांच की हो

जांच के लिए सरकारी एवं निजी प्रयोगशालाओं के बारे में जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है: [kcrnrc.in](http://kcrnrc.in)

### अधिक जानकारी के लिए

राज्य हेल्थ/कल्याण विभाग का संपर्क एवं अधिक जानकारी के लिए,  
सलाह सलाह के 24x7 हेल्थ/कल्याण विभाग पर कलिये करें

1075 (टोल फ्री) | 011-23978046

ई-मेल: [ncov2019@gov.in](mailto:ncov2019@gov.in), [ncov2019@gmail.com](mailto:ncov2019@gmail.com)





Ministry of Health & Family Welfare  
Government of India



Help us to  
help you



# NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19)

## Protective measures against Coronavirus



A distance of at least 1 meter is necessary to ensure safety for all



Wash your hands with soap and water regularly



If soap and water is not available, use hand sanitizer with at least 60% alcohol



Wash hands before touching eyes, nose and mouth



Throw used tissues into closed bins immediately after use



Cover your nose and mouth with handkerchief/tissue while sneezing and coughing



Avoid mass gathering and crowded places

If you are experiencing symptoms like fever, cough or difficulty in breathing, please call the state helpline number or 24x7 helpline numbers of Ministry of Health and Family Welfare, Government of India and follow the instructions.

Image: Ministry of Health and Family Welfare

# 1075 (Toll Free) | 011-23978046

Email for: [ncov2019@gov.in](mailto:ncov2019@gov.in), [ncov2019@gmail.com](mailto:ncov2019@gmail.com)

[#atthegovin](#) [@atthegovin](#) [atthegovin\\_A3A](#) [atthegovin](#)



स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
भारत सरकार



Help us to  
help you

# नोवल कोरोनावायरस (COVID-19)



## कोरोनावायरस से बचाव के उपाय



आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी,  
सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी



आपने हाथों को साबुन-पानी  
वाक़ूफ और पानी से धोएं।



बाक़ूफ और पानी डालना न हो।  
साब से साब-पानी, आलसीपुन-आलसीपुन  
द्वारा रोकिएवाक़ूफ का इलाज करें।



आपने आंखों, नाक और मुँह को छूने  
से बचने हाथों को धो लें।



सबसे कम दूरी रखें, सिन्धु को  
दुपल में रोकें, कुंआरुन में बनें।



दोस्तों और नाक़री बरत आनेसे बचें  
और मुँह को क़ाक़ल, सिन्धु से बनें।



सामक़ीक़ अक़ीक़तों और  
भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहें।

आपने आप क़ाक़ल, आंखों का बरत बने से रोकनेसे बने बाक़ूफ को बाक़ूफ कर लें, दो क़ाक़ल दूर कुंआरुन में बने का इलाज करें रोकिए बाक़ूफ में बाक़ूफ, बाक़ूफ बाक़ूफ से 1 मीटर कुंआरुन में बने का बरत करें और सिन्धु का बाक़ूफ करें।

डिज़ाइन: 10/03/2020

# 1075 (टोल फ्री) | 011-23978046

ई-मेल को: [ncov2019@gov.in](mailto:ncov2019@gov.in), [ncov2019@gmail.com](mailto:ncov2019@gmail.com)

[facebook](https://www.facebook.com/ncov2019) | [instagram](https://www.instagram.com/ncov2019) | [twitter](https://twitter.com/ncov2019) | [youtube](https://www.youtube.com/channel/UC...)







# भारत वापस लौटने वाले यात्री



यहाँ आना ही काफी है, मुस्कान से सजाए चेहरे में स्वास्थ्य।  
इसे ही सुरक्षा के सबसे बेहतरीन तरीके मानें।



यहाँ आना ही काफी है, मुस्कान से सजाए चेहरे में स्वास्थ्य।  
इसे ही सुरक्षा के सबसे बेहतरीन तरीके मानें।



यहाँ आना ही काफी है, मुस्कान से सजाए चेहरे में स्वास्थ्य।  
इसे ही सुरक्षा के सबसे बेहतरीन तरीके मानें।



यहाँ आना ही काफी है, मुस्कान से सजाए चेहरे में स्वास्थ्य।  
इसे ही सुरक्षा के सबसे बेहतरीन तरीके मानें।



यहाँ आना ही काफी है, मुस्कान से सजाए चेहरे में स्वास्थ्य।  
इसे ही सुरक्षा के सबसे बेहतरीन तरीके मानें।



यहाँ आना ही काफी है, मुस्कान से सजाए चेहरे में स्वास्थ्य।  
इसे ही सुरक्षा के सबसे बेहतरीन तरीके मानें।

यहाँ आना ही काफी है, मुस्कान से सजाए चेहरे में स्वास्थ्य।  
इसे ही सुरक्षा के सबसे बेहतरीन तरीके मानें।

## सुरक्षित रहें! जीवन वापस आने पर सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करें।

भारत का जीवन वापस सामान्य बनाए रखें। 1075 या +91-11-23978046  
msar2020@igmail.com



Help us to help you

# NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19)



## Protect yourself and others!

### Follow these Do's and Don'ts

#### Do's

	Practice frequent hand washing. Wash hands with soap and water or use alcohol based hand rub. Wash hands even if they are notchy clean.		Cover your nose and mouth with tissue/cloth/tissue while sneezing and coughing.		Spit used tissue into closed bins immediately after use.
	See a doctor if you feel unwell (fever, difficulty breathing and cough). While visiting doctor wear a mask/face to cover your mouth and nose.		If you have these symptoms/fever please call State helpline number or Ministry of Health & Family Welfare's 24x7 helpline at 011-23971000.		Avoid participating in large gatherings.

#### Don'ts

	Have a close contact with anyone if you're experiencing cough and fever.		Touch your eyes, nose and mouth.		Spit in public.
--	--	--	----------------------------------	---	-----------------

## Together we can fight Coronavirus

**For further information :**  
 Call at Ministry of Health, Govt. of India's 24x7 control room number  
**+91-11-2397 8046**  
 Email at [ncov2019@gmail.com](mailto:ncov2019@gmail.com)



Help us to help you



# नोवल कोरोनावायरस (COVID-19)

— खुद रहें सुरक्षित, दूसरों को रहें सुरक्षित —  
**क्या करें और क्या ना करें**

**क्या करें**



हाथों को धुनें, जब आपकी आंखें, नास या मुँह से छींके आँसू, या खाने पीने के बाद या सड़क और चारों ओर चलें।



खुद को और दूसरों को, खासकर सड़क पर या सड़क किनारे से दूरी दें।



खुद से दूरी बनाए रखें, जो किसी को छूने से दूर है।



खुद को अपनी बुखार, खांसी और खांसी से जाँचें। यदि ये संकेत हैं तो डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर से मिलने से पहले अपनी आंखें, नास और मुँह को छूने से बचें; सिर/नाक को छूने से बचें।



खुद को या किसी को बुखार से जाँचें। यदि बुखार या अन्य संकेत हैं तो 24x7 हेल्पलाइन पर 11-2397 8046 से सलाह लें।



घर-घर वाली जाँचों से बचें।



**क्या ना करें**

कोई व्यक्ति को छूने से बचें, खासकर सड़क पर या सड़क किनारे से दूरी दें।



खुद को, या किसी को छूने से बचें।



सामूहिक जाँचों से बचें।

**हम सब साथ मिलकर कोरोनावायरस से लड़ सकते हैं**

**अधिक जानकारी के लिए**

सहायता एवं परामर्श के लिए नेशनल हेल्पलाइन पर 24x7 हेल्पलाइन पर, **+91-11-2397 8046** पर कॉल करें या ई-मेल करें **ncov2019@gmail.com**

FAQs

[Click to see the FAQ pdf](#)

Disclaimer : Website content managed by Ministry of Health and Family Welfare, GOI Design, Developed and Hosted by National Informatics Centre (NIC)